



SEE MORE JESUS • WANTTOSEEMORE.COM

ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ — ਸਟ੍ਰਾਂਗਸ ਨੰਬਰਾਂ ਸੈਥ ਏਕਕ ਬਾਇਬਲ ਅਧਯਯਨ

ਸਵਾਲ ਆਰ ਜਵਾਬ — ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਮਨ ਫਿਰਾਓ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੋ, ਪਵਿਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਓ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਾਇਬਲ ਸਿਫ਼ਤਾਂ — ਯੀਸ਼ੁ ਮਸੀਹ ਰਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ

ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ

ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੇ ਤਿਨ੍ਹੋ ਬਣਾਯਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਿਨ੍ਹੋ ਪ੍ਰਿਅਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਨੁਏ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਿੱਤਾ ਏ, ਤੇ ਓਹਦੇ ਗਲਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੇ ਥਮਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਲਗ ਕਰਦੀ ਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੇ ਅਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਯੀਸ਼ੁ ਮਸੀਹ ਜੋ ਭੇਜ਼ਾ। ਯੀਸ਼ੁਏ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਿ ਕਿੱਤਾ, ਪਰ ਓਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਨੇ ਜੋ ਮਰੀ ਗਿਆ। ਫਿਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੇ ਉਸਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚ ਸੁੰ ਜਿੰਦਾ ਕਿੱਤਾ, ਤੇ ਓਹ ਹੁਣ ਜਿੰਦਾ ਏ। ਇਥੀ ਓਹ ਏ ਜੋ ਤਿਨ੍ਹੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਦਾ। ਇਸ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀਆਂ ਪਰ ਅਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲੈਂ ਸੁੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਅਪਣੇ ਗਲਤ ਰਸਤਿਆਂ ਥਮਾਂ ਮੁੜ ਜਾ — ਬਾਇਬਲ ਇਸਜੋ ਪਸ਼ਾਤਾਪ ਬੋਲਦੀ ਏ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੇ — ਯੀਸ਼ੁ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਪਾਧਿਏ ਦੇ ਥਲੈਂ ਜਾ — ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰੀ ਦੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਿਨ੍ਹੋ ਅਪਣਾ ਪਵਿਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਗਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੈਹਵੇ। ਫਿਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯੀਸ਼ੁ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਦਾ ਰੈਹ, ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਠੇ, ਅਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਗਰ। ਓਹ ਤੇਰੀ ਰੱਖਾ ਕਰਦਾ ਰੈਹਵੇਗਾ, ਤੇ ਓਹ ਤਿਨ੍ਹੋ ਕਦੀ ਨਿ ਖਤਮ ਹੋਏ ਆਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇਗਾ।

ਉਦਾਹਰਨ ਸ਼ਬਦ

ਮਿੱਤਰਾ, ਹਰ ਕੁਨੈਂ ਭੀ ਪੁੱਛੀ ਸਕਦੇ ਰਾ ਸਾਰਾ ਜਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਕਲੀਸੀਆ ਜੰਮ ਲੈਨੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਾ ਗਾ ਥਾ। ਜਿਨੀ ਲੋਕਾਂ ਸਚ ਸੁਣਿਆ, ਉਨੀ ਦਿਲ ਚ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਆਰ ਉਨੀ ਰੋਈ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਅਸਾਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਦਾ? ਉਨੀ ਸਿੱਧੇ ਕੁਝ ਮਹੱਸੂਸ ਕਰਨੇ ਜੋ, ਯਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੋਲੀ ਕੀ ਪੈਹਲੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤੋਏ ਜੋ ਨੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਾ ਥਾ। ਉਨੀ ਇਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਥਾ ਜਿਸਸਾ ਏਕ ਦੁਆਰ ਥਾ, ਆਰ ਉਸ ਦੁਆਰ ਚ ਇਕ ਕਦਮ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਥਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ — ਅਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲੇ ਸਾਥ — ਕਿ ਯੀਸ਼ੁ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਖਾਤਰ ਮਰਾ ਆਰ ਮਰੇ ਹੋਯਾਂ ਚਾ ਫਿਰੀ ਜੀ ਉਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਵਚਨ ਗੀ ਸੁਣਨੇ ਚਾ ਆਂਦਾ ਏ। ਪਸ਼ਾਤਾਪ ਕਰੋ — ਅਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲੇ ਸਾਥ ਅਪਣੇ ਪਾਪ ਥਮਾਂ ਮੁਹ ਮੋੜੋ। ਯੀਸ਼ੁ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੋ ਅਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਖਾਤਰ — ਉਂਦੇ ਸਾਥ ਦਫ਼ਨਾਏ ਜੋ, ਆਰ ਨਵੀਂ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਏ ਖਾਤਰ ਉਠਾਏ ਜੋ। ਪਵਿਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਰਦਾਨ ਲੋ — ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨੀ ਕੋਲਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨੀਂ ਏ, ਓਹ ਉਂਦਾ ਨੀਂ ਏ। ਤਾਂ ਦੁਆਰੇ ਪਰ ਹੀ ਨੀਂ ਰੁਕਣਾ: ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਚਾਏ ਗੇਯਾਂ ਲੋਕਾਂ ਗੀ ਓਹ ਭੀ ਸਿੱਖਾਂਦੇ ਨ ਕਿ ਉਂਦੇ ਸਾਥ ਚਲਦੇ ਰਹੋ, ਆਰ ਆਖਰੀ ਤਕ ਥਿਰਤਾ ਸਾਥ ਰਹੋ — ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤਿ ਸਚ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਂਦੀ ਏ, ਸਚ ਚ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰੈਹਦੀ ਏ, ਆਰ ਸਚ ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਂਦੀ ਏ। ਇਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਕ ਬਧਿਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਏ, ਆਰ ਤੁਸਾਂ ਇਸੀ ਧੜੀ ਹੀ ਓਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ; ਪਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਓਹ ਸਬ ਸੁਣੋ, ਆਰ ਉਸਗੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਏਹ ਏ ਅੰਦਰ ਆਏ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਇਸਗੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਖਾਤਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਰ ਇਸ ਪਰ ਚਲੋ।

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

1. ਜੇਠੀ ਲੋਕ ਦਿੱਲੈਂ ਤੇ ਚੀਰੇ ਗੇ ਤੇ ਚੀਂਗਦੇ ਬੋਲੇ, ਅਸਾਂ ਕੁ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਂਦਾ, ਤੇਸ ਬਖਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤੈਂ ਕੁਤਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ?
2. ਦਿੱਲੈਂ ਚ ਮਨਰਾਨਾ ਤੇ ਮੁੱਢ ਸੁੰ ਮਾਨਣਾ ਦਾ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਏ, ਤੇ ਯੀਸ਼ੁ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੇਨਾ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਏ?

3. मसीह असां दे पाप धोणे आस्तै क्या दुख सहया, अते पवित्र आत्मा दा उपहार कुसगी वादा कीता गया है?

I. सवाल — भाईयो लोको, अस्सां क्या करना चाहिदा?

प्रेरितों रे काम 2:36 “तो एबे इस्राएलो रा सारा कराना, पक्का जाणी लओ कि परमेशरे तेसी यीशुए खे, जो तुसे क्रूसो पाँदे चढ़ाया, प्रभु बी और मसीह बी ठराया।” (37) तेबे सुणने वाले लोका खे विश्वास ऊईगा कि आसे गलत काम करी राखेया और सेयो पतरसो खे और बाकि प्रेरिता खे पूछणे लगे, “ओ पाईयो! आसे क्या करिए?”

उई दे दिल च चोभ लगी --> हे भाईयो ते मनुष्यो, असां क्या करना चाहिदा?

II. आधार — मसीह मरा, और उसका खून पाप ते धोंदा

A. रोमियों 5:8 पर जेबे आसे पापी ई थे, तेबुई मसीह आसा री खातर मरेया। इजी ते परमेशरे आसा रिया तंई आपणे प्यारो रा सबूत दितेया।

जिबेकर आसां हाले पापी थे --> मसीह आसां करता मरा।

B. प्रकाशितवाक्य 1:5 यीशु मसीह री तरफा ते बी तुसा सबी लोका खे जो विश्वासो जोगे गवा ए, कृपा और शान्ति मिलदी रओ। यीशु मसीह मरे रेया बीचा ते जिऊंदे ऊणे वालेया रे जेठा ए और से तरतिया रे राजेया रा हाकिम ए। से आसा साथे प्यार राखेआ और तिने आपणे खूनो रे जरिए आसे पापो ते छुड़ाए। **[G3068 louo ■]**

विश्वासी गवाह + मरे होयां चा पैहला जनमया होया --> ओह जिसने असां कन्नै प्यार कित्ता --> ते असां गी अपने खूने कन्नै असां दे पापां थमां धोता।

C. इफिसियों 1:7 यीशु मसीह खे क्रूसो पाँदे आपणा खून बाह्ले रे जरिए परमेशरे आसा खे छुटकारा मतलब पापो खे माफ करिता। परमेशरो री कृपा कितणी महान् ए, जो तिने आसा खे बऊत जादा देई राखी।

यीशु मसीह खे क्रूसो पाँदे आपणा खून बाह्ले रे जरिए परमेशरे आसा खे छुटकारा मतलब पापो खे माफ करिता = परमेशरो री कृपा कितणी महान् ए.

(मेरे निजी विचार — मुक्ति और पापों की क्षमा उसी में छन। एही कारण आसां उस मां बपतिस्मा लंदे — जेह लहू आसां जो धोंदा, ते जेह क्षमा एह खरीददा, से उसी एक मां मिलदे जिस मां आसां बपतिस्मा लंदे।)

D. Isaiah 52:14

उंदा रूप कुसै आदमी थमां भी बड़ा बिगड़ी गया था --> ते उंदी शक्ल आदमियां रे पुत्रां थमां भी जादा बिगड़ी गई थी।

E. Isaiah 50:6

मन्ने अपणी पीठ मारणे आळयां गी दित्ती + अपने गाल बाल नोचणे आळयां गी --> मन्ने आपणा मुंह लाज ते थुक्कणे थमां नि लुकाया।

F. Psalm 22:14

मेरी सारी हड्डियां जोड़तै टूटी गिन --> उन्हां मेरे हाथ ते पैर छेद दे --> उन्हां मेरे कपड़े बांडे + मेरे बस्तरां पर चिट्ठी पाई.

G. Isaiah 53:4

ओं नैं आसां रे अपराधां री खातर घाव खाया + आसां री बुराइयां री खातर कुचल्या गया --> उंयां रे मार खाणे साथी आसां ठीक होई गे।

H. मत्तीए रा सुसमाचार 27:28 और तिना रे टाले खोली की तिना खे लाल रंगो रा चौगा पणयाई ता (29) और कांडेया रा मुकट बूणी की तिना रे सिरो पाँदे राखेया और तिना रे दाँणे आथो रे एक नगलो रा डण्डा देईता और तिना रे आगे कुटणे टेकी की तिना रा मजाक ऊड़ाणे लगे और बोलणे लगे, “ओ यहूदिया रे राजा नमस्कार!” (30) और तिना पाँदे थूकेया और सेई नगलो रा डण्डा लयी की तिना रे सिरो पाँदे बाणे लगे।

उंदे सिरा पर कंडाँ दा ताज --> उंरां उस पर थूकया + उंरां उस दे सिरा पर मारया।

I. लूका 22:44 तेबे सेयो जादा मुश्किला रे, व्याकुल ऊई की ओर बी दिलो ते दुःखी ऊई की प्रार्थना करने लगे और तिना रा पसीना, मानो खूनो रे बड़े-बड़े टीपेया जेड़ा जमीना पाँदे छुटणे लगी रा था।

खी ऊई की प्रार्थना करने लगे और तिना रा पसीना, मानो खूनो रे बड़े-बड़े टीपेया जेड़ा जमीना पाँदे छुटणे लगी रा था.

J. यूहन्ना 19:34 पर सिपाईया बीचा ते एकी जणे एक बड़छा बखिया रे कुसाया और तेते बीचा ते तेबुई खून और पाणी निकलेया।

एक भाले ने उसकी बगल छेदी --> तुरंत उसमें से लोहू ते पाणी निकल आया।

(मेरे निजी विचार — इन्हे धीरे-धीरे पढ़ा, और जाणा कि ऐ तेरे लेई थे। जेहड़ा मुंह तारेएं जो बणाया था, ओह पछाणे जो भी न रैह्या। जेहड़ी पीठ सारी चीजां जो थमदी है, ओह कोड़े ने चीर दित्ती गई। जेहड़े हथ कोढ़ी जो ठीक करदे थे, उन्हा जो लोहे ने विंध दित्ता गया। उसकी हड्डियां गिणने जो निकल आईयां। एक भी कील ठोकणे थमां पैहले पसीना खून जनु टपकया। उसजो जबरदस्ती नी दबाया गया था: उसने अपणी पीठ अपणी मर्जी ने दित्ती; उसने अपणा मुंह नी लुकाया। हर कोड़ा तेरा पाप था जो उसपर रखेया गया, हर घाव तेरी बुराई थी, हर बूंद तेरा कर्ज थी। और जिब्बर ऐ पूरा होई गया, तां उसकी बगल थमां खून और पाणी बाह आया — खून तेरे धोणे लेई, और पाणी तेरे उसमें दफनाणे लेई। तो जिब्बर तेरजो कह्या जांदा है कि पश्चाताप कर और बपतिस्मा ले, तां तेरे थमां कोई कठिन गल्ल नी मंगी जा री। तेरे थमां ऐ मंगेया जा री कि तूं अपने गोड्डयां पर बैठी कै ओह ग्रहण कर जिसदी कीमत उसजो ऐ सब कुछ लगी।)

III. प्रभु यीशु मसीहा पर विश्वास करो — कने अपने मूर्ऐ सिया उसा जो मन्ने

A. Genesis 15:6

उनी प्रभुए पर विश्वास कित्ता --> कने एह उसदे ताई धार्मिकता गिणेया गेआ।

B. रोमियों 4:3 पवित्र शास्त्र क्या बोलोआ? “अब्राहमे परमेशरो पाँदे विश्वास कित्तेया और ये तेसखे धार्मिकता गिणी गयी।”

अब्राहमे परमेश्वरो पर विश्वास कित्ता --> कने एह उसदे ताई धार्मिकता गिणेया गेआ।

C. Numbers 21:8

जिकड़ा कोई डंगेया गेआ, जालू से उस पास दिखदा ऐ --> तां से जिन्दा रौह्मा।

D. यूहन्ना 3:14 और जेते टंगो रे मूसे जंगलो रे पीतलो रा साप ऊच्चे पाँदे चढ़ाया था, तियाँ ई जरूरी ये कि आँऊ माणू रा पुत्र बी ऊच्चे पाँदे चढ़ाया जाओ। **[G4100 pisteuo ■]** (15) ताकि जो कोई मां पाँदे विश्वास करो, से अनन्त जीवन पाओ। (16) “कऊँकि परमेशरे दुनिया रे लोका ते एड़ा प्यार कित्तेया कि तिने आपणा एकलौता पुत्र देईता, ताकि जो कोई तेस पाँदे विश्वास करो, से नाश नि ओ, पर अनन्त जीवन पाओ।

जियां मूसा सांप उच्चा कित्तेया --> तियां ई मांणुए रे पुत्रो जो बी उच्चा कीता जाणा चाहिए --> जेह कोई बी उसदे पर विश्वास करग, ओ नाश नी होग, बल्कि सदा री जिंदगी पाग।

(मेरे निजी विचार — इन दोहें गल्लां गी कठे राख्वा ते इनका सिखाणा दिओ। सुक्खे बणे च, मरने वाळे लोकां गी इलाज कमाणे गी नीं बोल्या था। उंकुएँ गी बोल्या था कि परमेश्वरे जो खम्मे पर चढ़ाया था, उसदे पर विश्वास कने देख्वा — ते ओह जिन्दा रया। यीशु बोलदा है कि ओह खम्मा उसदे अपने क्रूस दी तस्वीर थी। विश्वास करना ही देखणा है। कोई बी माणु कुसै गल्ला दा पछतावा करने था, या कुसै गल्ला दी आज्ञा मानने था, उसते पहलें उसगी अपने पूरे मन कने उस चाहे गे माणुए पर देखणा ते उस पर भरोसा करना चाहीदा। ते अब्राहमे गी देख्वा: उसने विश्वास कित्ता, ते परमेश्वरे उसगी धर्मी मानी लेता — बिबस्था थमां पहलें, कुसै रीति-रिवाज थमां पहलें। विश्वास ही सारे गल्लां दी शुरुआत है। पर देख्वा कि अगली आयतां च विश्वास केने तेजी कने आज्ञा मानने पर पुज्जदा है — उसी रात, उसी घड़ी।)

E. रोमियों 10:8 पर से क्या बोलोई? “परमेशरो रा वचन तुसा गे ए, से तुसा रे मुँओ रे और तुसा रे मनो रे ए।” ये विश्वासो रा से वचन ए, जो आसे प्रचार करूँए। **[G3670 homologeo ■]** (9) जे तूँ आपणे मुँओ ते यीशुए खे प्रभु जाणी की अंगीकार करेगा और आपणे मनो रे विश्वास करेगा कि परमेशरे से मरे रेया बीचा ते जिऊँदा कित्तेया, तो तेरा पक्का उद्धार ऊणा। (10) कऊँकि विश्वास दिलो ते करेया जाओआ जेतेरा नतीजा धार्मिकता ए और अंगीकार मुँओ ते करेया जाओआ जेतेरा नतीजा उद्धार ए।

अपणे मुँह सँ प्रभु यीशु दा इकरार कर + आपणे दिलें च मन्न जो परमेश्वरे उसने मुर्दयां च सँ जिन्दा कित्ता --> तू बच जावेगा।

F. रोमियों 10:13 जियाँ पवित्र शास्त्रो रे लिखी राखेया, “जेस केसी प्रभुए रा नाओं लणा, तेसरा उद्धार ऊणा।”

जियाँ पवित्र शास्त्रो रे लिखी राखेया, “जेस केसी प्रभुए रा नाओं लणा --> तेसरा उद्धार ऊणा।

G. रोमियों 10:17 तो विश्वास सुणने ते और सुणना मसीह रे वचनो ते ओआ।

विश्वास सुणने ने आँदा ऐ --> ते सुणना परमेशरे दे वचने ने।

H. प्रेरितों रे काम 16:29 तेबे जेलरे दिऊआ मंगवाई की पीतरो खे लमखणे लगेया और थरथरांदा ऊआ पौलुस और सीलासो रे आगे रूड़ेया। **[G4100 pisteuo ■]** (30) तेबे तिने तिना खे बारे ल्याई की बोलेया, “ओ सज्जनो! उद्धार पाणे खे आऊँ क्या करूँ?” (31) तिने बोलेया, “प्रभु यीशुए पाँदे विश्वास कर, तेबे ताखे और तेरे कराने खे उद्धार मिलणा।” (32) तेबे पौलुस और सिलासे तेसखे और तेसरे सारे कअरो रे लोका खे प्रभुए रा वचन सुणाया। (33) तेबे राथियो खे तेसी कअड़िया रे जेलरे पौलुस और सिलास नि ए और तिना रे जखम तो ए और तिने आपणे लोका समेत फटाफट बपतिस्मा लया।

महाराजो, मैं बचणे आस्तै क्या करनां? --> प्रभु यीशु मसीहे पर विश्वास करा --> ते उसने ते उसदे सारे घरे वालयां ने तुरंत बपतिस्मा लिया।

(मेरे निजी विचार — पूरी बाइबल में सिर्फ दो बरी ई सवाल सीधा पूछेया गा: एक फिलिप्पी री जेला मां, ते दुई पिन्तिकुस्त रे बखत प्रेरितां रे कामां मां। दोनू जवाब कठु राखी क देखा। पिन्तिकुस्त री भीड़ पैह्ले सुणी ते मानी लेई थी — इसी करी क उआं रे दिल कटी गे थे — ते इसी करी पतरस अगलू कदम था लेइयां शुरू करेया: पश्चाताप करो ते बपतिस्मा लो। जेलदार अजें कुछ नी जाणदा था, इसी करी पौलुस पैह्ले कदम था लेइयां शुरू करेया: विश्वास करो — ते फेर उसजो प्रभु रा वचन सुणाया, ते राती री उसी घड़ी उस मांणुए बपतिस्मा लेई ल्या। दो शुरुआत, इक ई रस्ता। विश्वास बपतिस्मे रा विरोधी नी, ते बपतिस्मा विश्वासे रा विरोधी नी; विश्वास ओ दिल ऐ जेह आज्ञा मानदा, ते उसी घड़ी बी काफी बखत ऐ।)

I. इब्रानियों 11:6 सिर्फ विश्वासो रे जरिए ई आसे परमेशरो खे खुश करी सकूँए, कऊँकि परमेशरो गे आऊणे वालेया खे विश्वास करना चाईयो कि से आए और सेयो जो तेसखे सच्चाईया ते टोलोए से टोलने वालेया खे फल देओआ।

बिना बिश्वासे परमेश्वरे नू खुश करना असंभव ऐ --> जेह कोई परमेश्वरे कोल आंदा ऐ, उसनू बिश्वास करना जरूरी ऐ के ओह ऐ।

IV. जवाब — पश्चाताप करो, बपतिस्मा लैओ, पवित्र आत्मा जो पाओ

प्रेरितों रे काम 2:38 पतरसे तिना खे बोलेया, “पापो ते मन फिराओ, और तुसा बीचा ते हर एक आपणे-आपणे पापो री माफिया खे यीशु मसीह रे नाओं ते बपतिस्मा लओ, तो तुसा खे पवित्र आत्मा रा दान मिलणा। **[G859 aphasis ■]** **[G907 baptizo ■]**

[G3340 metaneo ■] (39) ये वादा तुसे और तुसा री ल्वादे और तिना सबी दूरो-दूरो रे लोका खे बीए, जो प्रभुए म्हारे परमेशरे आपू गे बुलाणे।”

पछतावा करो + यीशु मसीह दे नाँस मां बपतिस्मा लैओ पापां दी माफी ताँई --> तुसां पवित्र आत्मा दा दान पाओगे।

V. पछताओ

A. प्रेरितों रे काम 3:19 इजी री खातर मन फिराओ और वापस आओ, कि तुसा रे पाप माफ ऊई जाओ, ताकि प्रभुए रे सामणे शान्तिया रे दिन आओ।

पछतावा करो + मन फिराओ --> ताकि तुहाड़े पाप मिटा दिते जाओ।

B. लूका 13:3 आऊँ तुसा खे बोलूँआ कि ना; पर जे तुसे मन नि फेरोगे तुसे बी सब ईयां ई नाश ऊणे।

जे तुसां पाप नीं छोड़ोगे --> तां तुसां सारे भी इसी तरह नाश होई जाओगे।

C. 2 कुरिनथियों 7:10 से दुःख जो परमेशरो री भक्तिया री तरफा ते आओआ, तिजी रा नतीजा मन फिराणा और उद्धार ओआ और एस दुःखो ते पछताणा नि पड़दा। बल्कि दुनिया रे लोका रा दुःख सदा री मौत पैदा करोआ।

से दुःख जो परमेशरो री भक्तिया री तरफा ते आओआ --> बल्कि दुनिया रे लोका रा दुःख सदा री मौत पैदा करोआ।

(मेरे निजी विचार — एह नि सोचो कि एह कोई छोटी गल्ल ऐ, जेहड़ी इक बारी बोली गई ते मुक्की गई। पछतावा, ते इसदे जरे शब्द, सारी बाइबल च एक सौ बारह बारी गूँजदे न — पुराने नियम च छियालिस बारी, ते नये नियम च छिआसठ बारी। नबियां दी पुकार फिरो, फिरो थमां लेइयै, यूहन्ना दी पुकार पछतावा करो तक, प्रभु आपणे-आप थमां, प्रेरितां थमां, ते जी उठे मसीह दा कलीसियां गी लिखणा तक — इक ही सद् उत्पत्ति थमां लेइयै प्रकाशितवाक्य तगर चलदी रहदी ऐ: फिरो। परमेश्वर कदी बी लोकां गी इसदे लेई सद् देणा नि छोड़ा। ते कोई बी इसा करना नि छोड़ी सकदा।)

VI. मसीह च बपतिस्मा लैओ पापां दी माफी लेई

A. प्रेरितों रे काम 22:16 एबे देर कऊँ लगी रा करने? उठ बपतिस्मा लओ और तेसरा नाओं लयी की आपणे पापो खे तोओ।

[G907 baptizo ■]

उठ, और बपतिस्मा ले, और अपने पापों को धो डाल --> प्रभु के नाम पर पुकारते हुए।

B. रोमियों 6:4 इजी खे जेबे आसे बपतिस्मा लया तो आसे यीशु मसीह साथे मारे गये और गाड़े गये। ताकि जियाँ मसीह पिता परमेशरो री महिमा रे जरिए मरे रेया बीचा ते जिऊँदा कितेया, तियाँ ई आसे बी नये जीवनो री जी चाल चलिए।

ओंआ साथें बपतिस्मे रे जरिये मौता रे बिच गाड़े गे थे -- तां आसां भी नमी जिन्दगी रे च चलणा चाहिदा।

C. कुलुस्सियों 2:12 और तुसे लोक बपतिस्मे रे मसीह साथे दबाए गये और तिदे ई परमेशरो री शक्तिया पाँदे विश्वास करी की, जिने से मरे रेया बीचा ते जिऊँदा कितेया, तेस साथे जिऊँदे बी ऊए।

बपतिस्मा च तेदे गी दबाया गा --> परमेश्वरा दे कम्मे दे विश्वासे दे जरिए तेदे गी सांगा उठाय गा।

D. 1 पतरस 3:21 से पाणी बपतिस्मे रा चिह्न ए जो एबे तुसा खे बी बचाओआ। बपतिस्मे रा मतलब शरीरो रा मईल तोणा नि बल्कि साफ दिलो ते आपू खे परमेशरो गे सम्बालना ए। पर ये बपतिस्मा यीशु मसीह रे मरे रेया बीचा ते जिऊँदे ऊणे रे जरिए आसा रा उद्धार करोआ।

बपतिस्मा एबे आसा खे बी बचाओआ = परमेशरो गे अच्छी अंतरात्मा रा उत्तर।

(मेरे निजी विचार — पाणी नीं बचांदा। ई परमेश्वरे कठे इक अच्छी अंतःकरणा जो जवाब ऐ: लहू जो बपतिस्मे दी आज्ञाकारिता दे राहें अंतःकरणा पर लागान्दे, कने माणुए जो नोई जिन्दगिया खातर जिवाया जांदा।)

2 Kings 5:10

जा और यरदन में सात बार नहा --> तेरा शरीर फिर पहले जैसा हो जाएगा, और तू शुद्ध हो जाएगा।

2 Kings 5:13

जे नबिये तेरे ते कोई बड्डा काम करने खातर बोलदा, तां क्या तू नि करदा? --> तां फेर, जदू ओह बोलदा है, धो लै, तां साफ हो जा?

2 Kings 5:14

उसने यरदन नदी माँ सात बारी डुबकी लाई --> उसरा शरीर फिर एक नान्हे बाळका रे शरीरा जनाच होई गा, और उ शुद्ध होई गा।

(मेरे निजी विचार — एहदे च ओई सच्चाई हँ जिकी बड्डी पैली दर्शाई गई थी। नामान एक बड्डा माणस था, ते कोढ़ी था, ते उसयो एक निक्की जेही गल्ल करने बासा बोलेया गया: यरदन च सत बारी नहा ते साफ हो जा। से गुस्सा होई गया, ते कोई बड्डा चमत्कार आस लाई बैठा था, ते सोचदा था कि उसदे अपने देशा दे दरिया इस्राएल दे पाणिये कनै भला हिन — जियां लोक आज भी इसा सधारी हुकम पर ठोकर खान्दे न। पर से यरदन दा पाणी नी था जिसने उसयो ठीक कित्ता; से परमेश्वरे दे शब्दा दी आज्ञा मन्त्रना था, उस पाणिये च जिकी परमेश्वरे नौ लिया था। से हेठां गया ते सत बारी डुबकी लाई, ते उसदी चमड़ी एक निक्के जाहके दी चमड़िया जनुं हो गई। ऐंई ई कोई माणस नमां जन्म लैदा ऐ: अपनी कोई बड्डी मेहनता कन्नै नी, बल्कि आज्ञाकारिता च हेठां जाई, ते इक नमां जाहक बणी उप्पर आई, ते साफ होई।)

E. मरकुस 16:16 जेस विश्वास करना और बपतिस्मा लणा, तेसरा ई उद्धार ऊणा, पर जेस विश्वास नि करना से दोषी ठईराया जाणा।

[G907 baptizo ■]

जो कोई विश्वास करदा ते बपतिस्मा लैदा --> से उद्धार पाएगा।

F. यूहन्ना 3:5 यीशुए बोलेया, “आऊँ ताखे सच-सच बोलूँआ कि जदुओ तक कोई माणू पाणी और आत्मा साथे नि जम्मो, तो से परमेशरो रे राज्य रे नि जाई सकदा। **[G1080 gennao ■]**

जदुकर कोई मनुष्य पाणी अते आत्मा तई ना जम्मे --> तेह परमेश्वरे दे राज्ये मां नीं बड़ी सकदा।

G. गलातियों 3:27 और तुसा बीचा ते जितणेया यीशु मसीह रा बपतिस्मा लया, तिने मसीह पईनी ला रा। **[G907 baptizo ■]**

और तुसा बीचा ते जितणेया यीशु मसीह रा बपतिस्मा लया --> तिने मसीह पईनी ला रा.

H. तीतुस 3:4 पर फेर बी म्हारे उद्धारकर्ता परमेश्वरे आपणी दया और प्यार आसा पाँदे और सबी मांणूआ पाँदे प्रकट कितेया। (5) तिने आसे म्हारे पापो री सजा ते बचाए। ये आसा रे धार्मिक कामो री बजअ ते नि ऊआ जो आसे आपू किते पर तेसरी दया रे मुताबिक ऊआ। तिने आसा रा नये जन्मो रे जरिए और पवित्र आत्मा रे नया बनावे रे जरिए उद्धार कितेया।

म्हारे उद्धारकर्ता परमेश्वरे री कृपा ते प्यार जाहर होई गा --> धार्मिकता रे कम्मां रे जरिये नी --> बल्कि अपणी दया रे मुताबिक उसने आसां जो नये जन्मे रे नहाणे रे जरिये उद्धार दित्ता।

I. इफिसियों 2:8 कऊँकि विश्वासो रेई जरिए कृपा तेई तुसा रा उद्धार ऊई रा और ये तुसा री तरफा ते लिए, बल्कि परमेश्वरो रा दान ए। **[G5485 charis ■]** (9) और ना कामो री बजअ ते, एड़ा नि ओ की कोई कमण्ड करो। (10) परमेश्वरे आसे बणाई राखे। तिने आसे यीशु मसीह रे तिना खरे कामो री खातर बणाए जेतेखे परमेश्वरे पईले तेई म्हारे करने खे तयार करी राखेया।

अनुग्रह ते तुसां विश्वास रे जरिये उद्धार पायरा = परमेश्वरे रा दान --> कर्मां ताई नी, ताकि कोई घमंड नी करे --> आसां उसरी बणाई रचना आं, मसीह यीशुएं मां भल्ले कम्मां ताई सिरजी रा।

(मेरे निजी विचार — इन दो सच्चाइयां गी एक साथ रखा, तां इनके बीच कोई झगड़ा नीं ऐ। अनुग्रह ही दान ऐ; विश्वास उसयी प्राप्त करदा ऐ; ते बपतिस्मा कोई एहा कम्म नीं ऐ जो कुछ हासिल करदा ऐ, जिस तरह नामान न नदी मां डुबकी लगाके अपनी शुद्धता कमाई नीं थी, या मरने वाले लोकां न पीतल दे सांप गी देखके अपनी जिंदगी कमाई नीं थी। परमेश्वरे सब कुछ दित्ता; माणुए सिर्फ मात्रा ते प्राप्त करना ऐ। पानी थमां बाहर आने वाले माणुए कोल घमंड करने आसतै कुछ नीं ऐ — उ दफनाया गया, ते परमेश्वरे उसे जिवाल्ला। 1 पतरस 3:21 दे बारे च उप्पर एह्य कही गी थी, ते एह्य इत्थै बी सच्च ऐ: एह्य पानी नीं ऐ, ते एह्य साढ़े अपने हथां दे कम्म बी नीं न। एह्य अनुग्रह ऐ, विश्वास दी आज्ञाकारिता दे राहें प्राप्त कीता गया। ते अगली आयत ही बतांदी ऐ कि कम्म कीस आसतै न: मुक्ति दा आधार नीं, बल्कि उसदा फल — असां परमेश्वर दी अपनी रचना आं, मसीह यीशु च नमां बनाए गे तां जो असां उन्हां भले कम्मां च चलचां जेहड़ें उसने साढ़े आसतै पैहें ही तयार कीते न। जेहड़ा कोई हुकम गी मन्नदा ऐ उसने दान गी कमाया नीं ऐ, ते जेहड़ा कोई इसगी कमना समझदा ऐ उसने हुकम गी समझा ही नीं ऐ।)

J. 1 तीमुथियुस 1:13 आऊँ तो पईले निन्दा करने वाला, सताणे वाला और अन्देर करने वाला था, तेबे बी मां पाँदे कृपा ऊई, कऊँकि मैं अविश्वासो री दशा रे बिना समजी-बुजी की, यो काम किते थे।

एक निंदा करने वाला + एक सताने वाला + अन्यायी --> पर मन्नू दया मिली।

(मेरे निजी विचार — देखो कि इस आज्ञा-पालन से किसकिस रे पाप धोई गे। तार्सुस रे शाऊल मसीह री राह गी मरण तक सताया। उसने मरद-जनाना गिरफ्तार करी करी जेल हाणे घसीटे, वो परमेश्वर रे लोकां रा निन्दक और सतानहारा था। प्रभु आपू उसते राह मां मिले, उसगी जमीन पर सुटा दित्ता, और स्वर्गा थमां उसते बोल्ले। और फिर भी, तीन दिन बाद, अनन्यास गी भेजा गया कि बोले: उठ, बपतिस्मा ले, और प्रभु रे नाम गी पुकारदे होई आपणे पाप धोई ले। जे दमिश्क री राहा रे प्रकाश ने शाऊल रे पाप नई धोए, पर आज्ञा-पालन रे पाणिये ने धोए, तो कोई भी ये न सोचो कि उसरे आपणे पाप किसी सोखे तरीके ने मिटाए जाणे, जो परमेश्वरे सबसे बुरे पापियों गी दित्ता।)

VII. पवित्र आत्मा दा दान लौ

A. प्रेरितों रे काम 19:5 ये सुणी की तिने प्रभु यीशुएं रे नाओं ते बपतिस्मा लया। (6) और जेबे पौलुसे तिना पाँदे आथ राखेया, तो तेबे तिना पाँदे पवित्र आत्मा उतरेया और सेयो लग-लग पाषा बोलणे लगे और भविष्यबाणी करने लगे।

प्रभु यीशुएं रे नामे च बपतिस्मा लिया --> पवित्र आत्मा उंडै पर आई गी।

B. रोमियों 8:9 पर जबकि पवित्र आत्मा तुसा रे बसोआ, तो तुसे पापी शरीरो रे सबाओ री दशा रे लिए, बल्कि आत्मिक दशा रे। जे केसी रे पवित्र आत्मा लिए, तो से तेसरा जन लिया।

जे केसी रे पवित्र आत्मा लिए --> तो से तेसरा जन लिया.

C. प्रेरितों रे काम 2:39 ये वादा तुसे और तुसा री त्वादे और तिना सबी दूरो-दूरो रे लोका खे बीए, जो प्रभुएं म्हारे परमेश्वरे आपू गे बुलाणे।”

ये वायदा तुसां आस्तां + तुसां दे बच्चयां आस्तां + ते उन्हां सब्भां आस्तां जो दूर न।

D. इफिसियों 1:13 तुसे लोके बी सच्चो रा वचन मतलब आपणे उद्धारो रा सुसमाचार सुणी की प्रभु यीशु मसीह पाँदे विश्वास कितेया और तुसा लोका पाँदे बी तेसा पवित्र आत्मा री छाप लगी जेतेरा वादा करी राखेया था। (14) पवित्र आत्मा परमेश्वरो री तरफा ते से बयाना ए कि तेस आसा खे जायदात देणी जो तिने देणे रा वादा करी राखेया था और ये कि तिने आसे आपणे लोक करी की खरीदी ला रा। तिने एड़ा इजी खे कितेया ताकि आसे तेसरी तारीफ और महिमा करी सकिए।

उमां उम वटे दे पडिंउत आउमा ठाल मेठर लाखी ठाई --> निउडा माडी दितामउ दा बिआठा है।

E. 2 कुरिन्थियों 1:22 जिने आसा पाँदे छाप बी करी ती री और बयाने रे आत्मा आसा रे मनो रे दित्ती।

असां जो मुहर लगायी + असां दे हृदयां च आत्मा दा बयाना दित्ता।

इफिसियों 4:30 परमेश्वरों के पवित्र आत्मा से आपने बुरे चाल-चलणों से दुःख नि देओ, जेतेरे जरिए तुसा से छुटकारे से दिनों से छाप देई राखी।

परमेश्वरों के पवित्र आत्मा से आपने बुरे चाल-चलणों से दुःख नि देओ, जेतेरे जरिए तुसा से छुटकारे से दिनों से छाप देई राखी।

(मेरे निजी विचार — पवित्र आत्मा कुछ चुपचाप लोगों को ईनाम नाई। ऊ राजा की मोहर (SEAL) आ उनों पर जो उसदे अपने न, अते DOWN PAYMENT — विरासत दा पैहला हिस्सा जेहड़ा पैहले ही दित्ता जांदा — कि तू उसदा ऐ जदुख छुटकारे दा दिन नई आंदा। तो सवाल साफ खड़ा रैदा ऐ, अते इसनू पुच्छणा जरूरी ऐ: क्या तुसां पवित्र आत्मा लिया ऐ? क्योंकि वचन साफ-साफ आखदा ऐ: जिस कोई कोल मसीह दा आत्मा नई, ऊ उसदा नई ऐ। बिना मोहरा दी चिट्ठी राजा की चिट्ठी नई होंदी। बिना आत्मा वाला माणुह हाले मसीह दा नई होया। उसनू तलाश करो जदुख तुसां उसनू पा नई लैदे।)

अभिआम कृति

1. जदू उन्हां ऐ सुणा, तां उंआं दे मन च चोट लगी, और बोल्या —

- a) तू कजो देर लांदा?
- b) मनुखो अर भाईयो, अस्सां की करचां?
- c) महाराजो, मुझे उद्धार पाणे खातर के करना चाहिदा?

2. मन फिराओ, और तुसां हर इक जीजस क्राइस्ट दे नां च बपतिस्मा लो —

- क) पापां दी माफी
- b) खरी अंतःकरण दा जवाब
- c) खरीदी होयी मिलखत दा छुटकारा

3. वो कम्बदा होई आया, ते बोल्या, महाशयो, मैं क्या करना चाहिदा जो बचाया जावां? ते उनां बोल्या, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। ते उसी रात दे उसी बखत उसनै —

- a) छुटकारे दे दिन तक मुहर लागी थी
- b) यरदन नदी च सत बारी अपने आप गी डुबाया
- c) उसने बपतिस्मा लिया, ओह ते उसदे सारे लोक, तुरतां

4. नामान जोरदन नदी च सत बारी डुबकी लाई, और उंदा मांस फिरी होई गया —

- a) जिसलै ताजगी दे दिन आणे
- b) निक्के बच्चे दे मांस सांई, ते ओह शुद्ध होई गा
- c) नए जन्म दे नहाणे राहें

5. इसलेते पछतावा करो, अर मन फिराओ —

- a) ताकि तुहाड़े पाप मिट जाण
- b) तुसां सारे बी इसा तरां नाश होई जाओगे
- c) संसार दा दुख मौत ल्याई दिन्दा है

6. जेकर कुसी मां मसीह दा आत्मा नीं होणा —

- a) उ छुटकारे दे दिन तक मुहर लागुआ ऐ
- b) उह परमेश्वरे दे राज्ये विच नहीं वड़ी सकदा
- c) उ उंदा कोई नि

7. उस गी जिने असां तो प्यार कीता, ते असां गी असां दे पापां थमां धोई सुट्टा —

- a) यरदन नदिया दे पाणिये च
- b) अपने खूने च
- c) परमेश्वरे दे वचने राहें

जवाब कुंजी: 1-b · 2-a · 3-c · 4-b · 5-a · 6-c · 7-b

यो अध्ययन कन्नै शाखा बणदा

रैबिट-ट्रेल — गलातियों 3:27 ("मसीह च बपतिस्मा लैणा") अब्राहम दे बीज पासे खुल्दा है: "कने जेकर तुस मसीह दे हो, तां तुस अब्राहम दे बीज ओ, कने वायदे मुताबिक वारिस ओ" (गलातियों 3:29)।

रैबिट-ट्रेल — इफिसियों 1:14 ("आत्मा दा बयाना") उस खरीदी होई मिलखत दे छुटकारे पासे खुल्दा है — खुद विरासत, कने वो दिन जिसलू बयाना पूरा-पूरा भरेया जांदा है।

ग्रीक कुंजी शब्द

- “भरोसा करना” — **G4100 pisteuo** — विश्वास करना; भरोसा करना; सौंपना
प्रभु यीशु मसीह उप्पर बिश्वास करो, तां तूं उद्धार पाएगा — मने अंदरे बिश्वास, किसी भी कदम चलाने थमां पैहलें।
- “मन्नना” — **G3670 homologeo** — उई गल्ल कहणा; खुल्लमखुल्ला मानणा
मुंहा ने अंगीकार करने कन्नै उद्धार होंदा ऐ।
- “पश्चाताप करना” — **G3340 metanoeo** — मन फेरणा; पश्चाताप करना
वो मोड़ जड़ा इसा शुरू करदा ऐ — सिर्फ दुख नी, बल्कि परमेश्वरा री तरफां नमां बणेया मन।
- “बपतिस्मा लेणा” — **G907 baptizo** — धोणा; पाणिऐं गाड़या जाणा ते फेर उठाया जाणा
अज्ञाकारिता दा पैहला कम्म: उसदे कन्नै दफनाया गेआ, कने नमीं जिन्दगी च चलणे ताई उठाया गेआ।
- “धोत्ता” — **G3068 louo** — नहाणा; सारे शरीर गी धोणा
असां गी अपने खून मा पापां थमां धोणा।
- “माफी” — **G859 aphesis** — भेजणा; छोड़णा; माफी
यीशु मसीह दे नामै च बपतिस्मा पापां दी माफी दे बाश्तै — जो पाप बीती गे न, उना खौं भेज दित्ते जां।
- “जमेआ” — **G1080 gennao** — जन्म देणा; जन्म लेणा
जदूं तकर मनुक्खा पाणी और आत्मा तों नई जन्म लैदा, तां ओह परमेश्वरे दे राज्य च नई जाई सकदा।
- “क्रिपा” — **G5485 charis** — कृपा; मुत्त दान
कृपा दे जरिये तुसां विश्वासै राहें उद्धार पाया ऐ — एह परमेश्वरो दा दान ऐ।

इब्रानी मुख्य शब्द

- “भरोसा कित्ता” — **H539 aman** — भरोसा करना; मजबूत होना; वफादार होणा — "आमीन" शब्दा दी जड़
अब्राहमे प्रभुऐ पर विश्वास कित्ता; कने उनी एह उसदे ताई धार्मिकता गिणी।
- “साफ” — **H2891 taher** — साफ होणा; पवित्र होणा
धो, और शुद्ध होई जा — नामान दा मांस फिरी इक नहे बालक दे मांस जनूह होई गिया।
- “ठीक होई गेआ” — **H7495 rapha** — ठीक करना; पूरा-भला बनाणा
उसदे कोड़ां सुं अस ठीक होए ऐं।

SOURCES & CREDITS

Scripture: Baghlayani Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0);

Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).